

अंक 12, 3 जुलाई 2017

संगठन संवाद पत्र

विस्तृत प्रवास, गोवा

1 और 2 जुलाई 2017



पंचायत से संसद
तक भाजपा

1 जुलाई 2017

(प्रातः 8.30 से रात्रि 1.30)



- 8:30 दिल्ली निवास से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 9:00 हवाई जहाज द्वारा गोवा के लिए प्रस्थान
- 11:45 गोवा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत के बाद भारी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त संबोधन दिया
- 12:00 हवाई अड्डे से स्टेट गेस्ट हाउस पणजी के लिए प्रस्थान
- 1:00 गेस्ट हाउस में आगमन और कोर ग्रुप के साथ बैठक में श्री अमित शाह ने पार्टी के विचार को संपूर्ण गोवा और विभिन्न सामाजिक समुदायों तक पहुंचाने पर चर्चा की
- 2:00 केबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों और गोवा और सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों के साथ भोजन पर चर्चा
- 3:00 विधायकों एवं सांसदों के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा
- 4:30 स्थानीय निकाय चुनावों में विजयी भाजपा प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री अमित शाह ने पार्टी के विस्तार में सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए उनकी भूमिका भी निर्धारित की
- 6:00 होटल ताज विवान्ता में विशिष्ट जनों के साथ संवाद में श्री अमित शाह ने संक्षिप्त उद्बोधन के बाद विशिष्ट जनों के प्रश्नों के सधे हुए जवाब देते हुए उनकी उत्सुकता एवं शंकाओं का समाधान किया
- 8:00 होटल फीडलगो में भोजन
- 8:30 प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों एवं मोर्चा प्रमुखों के साथ चर्चा
- 11:00 स्टेट गेस्ट हाउस में आगमन और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा
- 1:30 रात्रि विश्राम



2 जुलाई 2017

(प्रातः 8.15 से रात्रि 9.05)



- 8:15** मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नाश्ता
- 9:20** संघ मुख्यालय में संघ परिवार के प्रतिनिधियों के साथ संवाद में श्री अमित शाह ने विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया
- 10:00** भाजपा कार्यालय मरगाँव में आगमन
- 11:15** आईटी और मीडिया सेल द्वारा प्रस्तुति के बाद श्री शाह ने इन विभागों के कार्यों का निर्धारण किया
- 12:20** प्रकल्प एवं विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री अमित शाह ने कार्यों एवं दायित्वों को रेखांकित करते हुए संवाद किया
- 1:20** वरिष्ठ संपादकों के साथ भोजन के दौरान श्री शाह ने मीडिया के कठिन प्रश्नों का सहजता से जवाब देते हुए पार्टी एवं सरकार का पक्ष मजबूती से रखा
- 3:00** डंप फैक्ट्री मरगाँव के लिए प्रस्थान
- 3:20** सॉलिड बेस ट्रीटमेंट प्लांट का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन और कर्मचारियों के साथ संवाद में श्री अमित शाह ने इसकी जानकारी ली
- 3:50** मरगाँव के लिए प्रस्थान
- 4:15** मरगाँव में दक्षिणी गोवा के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद श्री अमित शाह ने उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया
- 5:25** दबोलिन हवाई अड्डे पर आगमन
- 6:20** दिल्ली के लिए प्रस्थान
- 9:05** दिल्ली आवास पर आगमन



पंचायत से संसद तक भाजपा



भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक एवं जनसमर्थन के स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास कार्यक्रमों का लाभ हर प्रवास में प्राप्त हो रहा है। हाल ही में सरकार बनने के बाद विस्तृत प्रवास कार्यक्रम अंतर्गत गोवा दौरे से पार्टी को बेहद उत्साहजनक प्रसार और विस्तार मिला है। श्री अमित शाह के गोवा प्रवास की उपलब्धियों को पार्टी निम्नलिखित रूपों में देख रही है:

- पिछले कई दशकों से विधानसभा चुनावों में निचले स्तर पर व्यक्तिगत प्रभाव होने के कारण राजनैतिक दलों को पूर्ण बहुमत न देकर गोवा ने खंडित जनादेश दिया है, जिसके कारण कोई भी सरकार स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकी। अतः अपने इस प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने गोवा की जनता को व्यक्तिगत प्रभाव से परे प्रदेश और देश की राजनीति में पिरोने की योजना बनाई ताकि गोवा भी देश में चल रहे मोदी जी के विकास रथ के साथ चल सके। श्री शाह ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए "एक वोट भाजपा को, एक वोट गोवा और भारत को" का नारा दिया और कहा कि जब तक गोवावासी व्यक्तिगत प्रभाव से उठ कर राजनैतिक दलों को योग्यता के आधार पर नहीं चुनना नहीं शुरू करेंगे तबतक शायद गोवा देश के विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पायेगा। श्री शाह का यह संदेश गोवा की विभाजित राजनीति में निश्चित रूप से बदलाव लाकर भाजपा को मजबूती देगा।
- पिछले तीन विधानसभा चुनावों के परिणाम और जमीनी तथ्यों का सूक्ष्म आंकलन करके अपने नेतृत्व में भाजपा गोवा नेतृत्व ने 2019 में दोनों लोकसभा सीटों और 2022 में 30 विधानसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य बना कर पार्टी को गोवा के हर वर्ग तक मजबूती से ले जाने का संकल्प किया।
- अभी हाल के विधानसभा चुनावों में हालांकि भाजपा को सिर्फ 13

विधानसभा सीटों पर विजय मिली, परंतु 7 ईसाई विधायकों के साथ पार्टी को ईसाई समुदाय से भारी समर्थन मिला। पार्टी को मिले इस नए समर्थन को और अधिक मजबूत करने के लिए ईसाई समुदाय में प्रभाव बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई जिसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।

- राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए जनसंपर्क की एक समयबद्ध योजना बनाई, जिसमें आगामी दो महीनों में पार्टी एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत गोवा के हर कोने में एक विस्तृत जनसंपर्क करेगी इससे

पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

- कुछ दिनों पूर्व हुए पंचायत चुनावों में 600 से भी अधिक विजयी हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साध कर उन्हें पार्टी के नियमित कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करके श्री शाह ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने का एक सार्थक प्रयास किया।
- श्री शाह ने प्रदेश नेतृत्व को पंडित दीनदयाल विस्तारक योजना को गति देकर अधिक से अधिक पूर्ण विस्तारकों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जिससे पार्टी को बूथ स्तर तक तेजी से मजबूत किया जा सके।
- गोवा को एक "मॉडल" प्रदेश बनाने के भाजपा के संकल्प को दोहराते हुए केंद्र सरकार द्वारा गोवा को दी जाने वाली राशि में 5 गुना बढ़ोत्तरी का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि शिपयार्ड के विकास के लिए केंद्र द्वारा दी गई 35,000 करोड़ की राशि से प्रदेश में हजारों लोगो को रोजगार मिलेगा। गोवा में नए हवाई अड्डे के निर्माण से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियाँ दो गुना से भी अधिक होगी जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि प्रदेश सरकार को विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।
- प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से संयुक्त संवाद करके श्री शाह ने सरकार और पार्टी के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया जिससे राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने के प्रयासों को गति मिलेगी।
- गोवा के प्रबुद्ध वर्ग से हुए संवाद में श्री शाह ने पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा जिससे की गोवा के अभिजात्य वर्ग में न सिर्फ भाजपा की छवि को मजबूती मिली बल्कि साथ ही साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतिगत स्पष्टता का भी संदेश गया।


नीति विषयक शोध विभाग

एक राजनीतिक दल को जनता के हितों, उनकी अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को समझते हुए राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करना होता है। भाजपा राजनीति के माध्यम से लोक कल्याण एवं अन्त्योदय के संकल्पों पर कार्य करने वाली पार्टी है। अतः पार्टी का यह दायित्व है कि हम जन अपेक्षाओं एवं जनहित से जुड़े विषयों की सही और पुख्ता जानकारी रखें। इसके लिए पार्टी ने नीति विषयक शोध विभाग की संरचना की है। पार्टी का यह विभाग नीतियों से संबंधित शोध करके उन विषयों पर सही जानकारी एकत्र करता है, जो जनहित के लिए उपयोगी एवं व्यवहारिक होती हैं। इस विभाग के कार्य एवं दायित्व निम्न हैं।

- इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है कि यह विभाग पार्टी की ओर से पार्टी की सरकारों के लिए जनकल्याण की योजनाओं तथा जनोपयोगी नीति के संबंध में शोध करे एवं इसके लिए जरूरी दस्तावेज तैयार करे।
- पार्टी की विभिन्न प्रदेशों एवं केंद्र की सरकारों द्वारा चलाई जा रही नीतियों, योजनाओं में कितनी समानताएं तथा असमानताएं हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर शोध के द्वारा प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने एवं उसके आधार पर रिपोर्ट आदि तैयार करने का दायित्व इस विभाग का है।
- नीति विषयक शोध विभाग का यह भी दायित्व है कि वह पार्टी के विचारधारा व सिद्धांतों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों का चयन करे और उसपर व्यापकता से शोध आधारित नीति पत्र का निर्माण करे। इन विषयों के चयन और उनकी आवश्यकता का दायित्व भी इस विभाग का ही होता है।
- विभाग का प्रमुख दायित्व है कि राज्यों तथा केंद्र में होने वाले चुनावों के मद्देनजर जनता के मिजाज को समझने, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उनके मनोभावों को जानने का प्रयास करे। चुनाव के दौरान जिस राज्य में चुनाव होने वाला है, वहाँ के मुद्दों, राजनीतिक गतिविधियों पर गहन शोध के उपरांत चुनाव घोषणापत्रों या विजन डोक्युमेंट्स तैयार करने के लिए शोध संबंधी कंटेंट उपलब्ध कराने का दायित्व इस विभाग को दिया गया है।
- विभाग को इस बात का सदैव ध्यान रखना होता है कि पार्टी का घोषणापत्र सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों से अलग हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि नीति एवं शोध विषयक विभाग सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों का संकलन करे तथा उसके कंटेंट के बारे में शोध कर तुलनात्मक अध्ययन करे। इसके उपरांत कुछ नया एवं रचनात्मक सामग्री तैयार करने की दिशा में ठोस प्रयास करे।

नीति विषयक शोध विभाग पर श्री अमित शाह के विचार

भाजपा के लिए सत्ता साध्य नहीं बल्कि परिवर्तन का माध्यम मात्र है। अतः हमारा दायित्व है कि हमारी सरकारें पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर चले; यह सुनिश्चित करने के लिए हमें निरंतर शोध आधारित नीति पत्रों को निर्माण करना होगा। इसके अतिरिक्त हमारा यह भी दायित्व है कि हम केंद्र और प्रदेश सरकारों की 'गुड प्रेक्टिस' का दस्तावेजीकरण करके उन्हें नीति निर्धारण करने वालों तक पहुंचाए।



“ श्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में गोवा तेज गति से एक मॉडल स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही गोवा देश में सभी राज्यों के लिए विकास का एक मॉडल स्टेट बनकर उभरेगा। ”

किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उस राज्य में केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि उस राज्य की व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है और गोवा इसका एक उदाहरण है।


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गोवा में इन्फ्रास्ट्रक्चर की सभी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हों, या शिपिंग प्रोजेक्ट्स या फिर अन्य परियोजनाएं।

गोवा के आम-जन की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास करने वाली सरकार तो श्री मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बन गई लेकिन उसके साथ-साथ भ्रष्टाचार नाम के शब्द को गोवा की सरहदों से दूर करने वाली सरकार भी गोवा में बनी है।

जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की शून्य से शिखर तक की यात्रा के मूल में पार्टी के ऊर्जावान एवं निष्ठावान कार्यकर्ता ही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं।

हर जिले में पार्टी कार्यालय बनाने का काम दिसंबर, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालय पार्टी की योजनाओं को मूर्त रूप देने का साधन होते हैं।

मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में गोवा की भाजपा सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार विहीन सरकार है, भाजपा ने राज्य को एक आम नागरिक जैसा मुख्यमंत्री देने का काम किया है।



BJP National President
Shri Amit Shah's



SANGHATHANATMAK
PRAVAS



सरकारी योजना बारा कोटी घरांत

२०१८ अखेरीस प्रत्येक जिल्ह्यात भाजप कार्यालय
शहा यांची घोषणा : आगामी लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरु

विकासाच्या मुद्यावर स्वबळावर
लढविणार पुढील निवडणुका!

मोपा विमानतळामुळे अर्थप्राप्तीत दोन टक्क्यांची होईल वाढ

गोव्याचे सरकार पाच
वर्षासाठी : अमित शहा

BJP district office inaugurated

Saxtti Shadownman attended the BJP district office inauguration on Sunday. It was a very short and a point-spoken function. Saxtti Shadownman noted that it wasn't only a district office inauguration, but also a meet of sorts for the defeated BJP MLAs and the ministers. It was an embarrassment to these MLAs, to see their own rivals sharing a stage with the BJP president. "Smile can be seen on the faces of party workers as we have a district office to... at Shah, the national BJP president. This could... an said... rally. Shah in..."



गत पाच वर्षांत भाजप सरकारकडून
गोव्याचा विकास : अमित शहा

Amit Shah arrives in Goa on two-day visit

Panaji, BJP chief Amit Shah arrived in Goa on Saturday on a two-day visit where he is scheduled to meet senior party officials to draw up a strategy for the 2019 general elections.

Shah, who landed at the Dabolim airport around 11.15 a.m., was received by Chief Minister Manohar Parrikar, Deputy Chief Minister Vinay Tendulkar, among others.

आदर्श राज्याच्या निर्मितीसाठी
सरकार प्रयत्नशील : अमित शहा

भाजपच्या मडगावातील जिल्हा कार्यालयाचे उद्घाटन

More lynchings between 2011 & 13,
but nobody questioned then: Shah
Says do not want to compare & undermine current incidents of lynching

अमित शहा : पणजीतून सातनसुबिवावर भ्रम, मडगावात दक्षिण गोवा भाजप कार्यालयाचे उद्घाटन

गोवा मॉडेल राज्य बनवणार



Amit Shah meets coalition partners in Goa Government



भाजपाचें कार्यालय कार्यकर्त्यां
खातीर देवूळ करूं: अमीत शहा



Goa will flourish under Parrikar: Shah
Says Goa has the full potential of becoming the model State

साळगावातील कचरा प्रक्रिया
प्रकल्पाला अमित शहांची भेट

गोव्यात मुदतपूर्व निवडणूक नाहीच

गोव्याच्या विकासासाठी केंद्राची पूर्ण मदत

Mopa airport will fuel Goa's tourism & economy: Amit Shah

Shah meets coalition partners in Goa govt

केंद्रात पुढील सरकारही भाजपचेच : शहा

Parrikar flags off 'Mission Salcete'

Says it's BJP's dream to make Goa a model State

केंद्रात पुढील सरकारही भाजपचेच : शहा

Shah says BJP will have offices in every zilla of the country by 2018

With opening of party's S-Goa office, Parrikar affirms Mission Salcete has begun

वर्षभरात देशात प्रत्येक जिल्ह्यात
भाजपची कार्यालये : अमित शहा



BJP has plans for office in nation's every district by 2018-end: Amit Shah